



1. Which number will come in the place of Question mark ?
 8, 12, 9, 13, 10, 14, ?
 (A) 10 (B) 15
 (C) 11 (D) 16

2. Which of the following input device is used to convert a document into an electronic format and it can be stored on the disk ?
 (A) Printer (B) Plotter
 (C) Scanner (D) Projector

3. Who is the current President of Indian Weightlifting Federation ?
 (A) Bajrang Punia (B) Anand Gowda
 (C) Sahdev Yadav (D) Santosh Yadav

4. Which of the following Courts have the power to issue writs for the enforcement of the Fundamental Rights in the Country ?
 (A) Supreme Court
 (B) High Court
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of the above

5. Indian System of Medicine (ISM) includes systems.
 (A) Five (B) Six
 (C) Three (D) Ten

6. Which letter in the word 'SELFRIGHTEOUSNESS' does not change its position when the letters are reversed ?
 (A) T (B) G
 (C) H (D) E

7. In how many years will a sum of money double itself at $6\frac{1}{4}\%$ simple interest per annum ?
 (A) 24 years (B) 20 years
 (C) 12 years (D) 16 years

8. Of the 84 parents who attended a meeting at a school, 35 volunteered to supervise children during the school picnic and 11 volunteered both to supervise children during the picnic and to bring refreshments to the picnic. If the number of parents who volunteered to bring refreshments was 1.5 times the number of parents who neither volunteered to supervise children during the picnic nor volunteered to bring refreshments, how many of the parents volunteered to bring refreshments ?
 (A) 25 (B) 36
 (C) 42 (D) 45

1. प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या आयेगी ?
 8, 12, 9, 13, 10, 14, ?
 (A) 10 (B) 15
 (C) 11 (D) 16

2. निम्नलिखित में से कौन-सा इनपुट डिवाइस दस्तावेज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तित करता है और उसे डिस्क पर भंडारित किया जा सकता है ?
 (A) प्रिंटर (B) प्लॉटर
 (C) स्कैनर (D) प्रोजेक्टर

3. भारतीय भारोत्तोलन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ?
 (A) बजरंग पुनिया (B) आनंद गौड़ा
 (C) सहदेव यादव (D) संतोष यादव

4. देश में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास है ?
 (A) सर्वोच्च न्यायालय
 (B) उच्च न्यायालय
 (C) (A) और (B) दोनों
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. भारतीय औषधि प्रणाली (आई.एस.एम.) में _____ प्रणालीयां शामिल हैं।
 (A) पाँच (B) छः
 (C) तीन (D) दस

6. शब्द 'SELFRIGHTEOUSNESS' में कौन-सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, जब अक्षर उलट क्रम में लिखे जाते हैं ?
 (A) T (B) G
 (C) H (D) E

7. प्रति वर्ष $6\frac{1}{4}\%$ साधारण ब्याज पर कोई राशि कितने वर्षों में दुगुनी होगी ?
 (A) 24 वर्ष (B) 20 वर्ष
 (C) 12 वर्ष (D) 16 वर्ष

8. एक स्कूल की बैठक में उपस्थित 84 अभिभावकों में से 35 अभिभावक स्कूल पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख के लिए वालंटियर हैं और 11 अभिभावक पिकनिक के दौरान बच्चों की देखरेख और नाश्ता लाने दोनों के लिए वालंटियर हैं। यदि नाश्ता लाने वाले वालंटियर अभिभावकों की संख्या ऐसे अभिभावकों का 1.5 गुणा है, जो पिकनिक के दौरान न तो बच्चों की देखरेख के लिए वालंटियर हैं और न ही नाश्ता लाने के लिए वालंटियर हैं, कितने अभिभावक नाश्ता लाने के लिए वालंटियर हैं ?
 (A) 25 (B) 36
 (C) 42 (D) 45

P 84
35



9. Example for Baby AT Motherboard
 (A) Pentium I (B) Pentium II
 (C) Pentium III (D) Pentium MMX
10. The process of cleaning dirty money with the objective of hiding its source and enabling it to be used later in a legal form is
 (A) Smuggling (B) Black money
 (C) Demonetization (D) Money laundering
11. Which bankruptcy law of India seeks to consolidate the existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy ?
 (A) The Bankruptcy Code, 2020
 (B) The Insolvency Code, 2020
 (C) The Insolvency and Bankruptcy Rule, 2021
 (D) The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
12. In which year did the Ancient Olympic Games begin ?
 (A) 756 BCE (B) 765 BCE
 (C) 776 BCE (D) 782 BCE
13. In the Olympic games, the flags of 6 nations were flown on the masts in the following way : The flag of America was to the left of Indian Tricolour and to the right of the flag of France. The flag of Australia was on the right of Indian flag but to the left of the flag of Japan, which was to the left of the flag of Canada.
 Find the two flags which are in the centre.
 (A) America and India
 (B) Japan and Australia
 (C) America and Australia
 (D) India and Australia
14. Which of the following does not represent electrical power in a circuit ?
 (A) I^2R (B) IR^2
 (C) VI (D) $\frac{V^2}{R}$
15. Find the missing number.
- (A) 11
 (C) 13

(B) 17
 (D) 19
9. बेबी ए. टी. मदरबोर्ड का उदाहरण है
 (A) पैटियम I (B) पैटियम II
 (C) पैटियम III (D) पैटियम MMX
10. किस प्रक्रिया के तहत गंदे धन के स्रोत को छुपाने और बाद में उसे कानूनी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से साफ किया जाता है ?
 (A) तस्कीर (B) काला धन
 (C) विमुद्रीकरण (D) मनी लॉन्ड्रिंग
11. दिवालिया और शोधन अक्षमता के लिए एक ही कानून बना के भारत का कौन-सा दिवालिया कानून मौजूदा ढाँचे को समेकित करता है ?
 (A) दिवालिया संहिता, 2020
 (B) शोधन अक्षमता संहिता, 2020
 (C) दिवालिया एवं शोधन अक्षमता नियम, 2021
 (D) दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016
12. प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ ?
 (A) 756 ई.पू. (B) 765 ई.पू.
 (C) 776 ई.पू. (D) 782 ई.पू.
13. ओलंपिक खेलों में, 6 राष्ट्रों के झंडे निम्नलिखित तरीके से फहराए गए :
 भारतीय तिरंगे के बाएँ और फ्रांस के झंडे के दाएँ अमेरिका का झंडा फहराया गया। ऑस्ट्रेलिया का झंडा, भारत के झंडे के दाएँ है परंतु जापान के झंडे के बाएँ है, जो कनाडा के झंडे के बाएँ है।
 वे दो झंडे ज्ञात करें, जो केंद्र में हैं।
 (A) अमेरिका और भारत
 (B) जापान और ऑस्ट्रेलिया
 (C) अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया
 (D) भारत और ऑस्ट्रेलिया
14. निम्नलिखित में से कौन-सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता ?
 (A) I^2R (B) IR^2
 (C) VI (D) $\frac{V^2}{R}$
15. लुप्त संख्या ज्ञात करें।
- (A) 11
 (C) 13


(B) 17
 (D) 19



16. Which of the following connects a PC to a Joystick ?
 (A) Modem (B) Ethernet port
 (C) Game port (D) DVI port
17. To enhance the financial inclusion, the Reserve Bank of India has undertaken a project titled
 (A) Project Financial Literacy
 (B) Project Financial Tandrum
 (C) Project Finance and Audit
 (D) Project Literature
18. How many times will the minute hand and the hour hand of a clock be at right angles in 24 hours ?
 (A) 12 (B) 24
 (C) 44 (D) 48
19. Magnitude of drift velocity per unit electric field is
 (A) Current density (B) Current
 (C) Resistivity (D) Mobility
20. World's most problematic aquatic weed is
 (A) Pistia (B) Lantana
 (C) Eichhornia crassipes (D) Cactus
21. Five boys took part in a race. Ram finished before Mohan but behind Gopal. Vijay finished before Sailesh but behind Mohan. Who won the race ?
 (A) Ram (B) Gopal
 (C) Mohan (D) Vijay
22. Which of the following is not a secondary storage device ?
 (A) Floppy disk (B) Hard disk
 (C) Tape drive (D) Register
23. _____ means a system of a secure key pair consisting of a private key for creating a digital signature and a public key to verify the digital signature.
 (A) Symmetric Crypto System
 (B) Asymmetric Crypto System
 (C) Symmetric Encryption System
 (D) Symmetric Decryption System
16. निम्नलिखित में से कौन पी.सी. को एक जॉयस्टिक से जोड़ता है ?
 (A) मॉडेम (B) इथरनेट पोर्ट
 (C) गेम पोर्ट (D) डी.वी.आई. पोर्ट
17. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस परियोजना का आरंभ किया है ?
 (A) प्रोजेक्ट फाइनैंशियल लिटरेसी
 (B) प्रोजेक्ट फाइनैंशियल टैंड्रम
 (C) प्रोजेक्ट फाइनैस एंड ऑडिट
 (D) प्रोजेक्ट लिटरेचर
18. 24 घंटों में कितनी बार एक घड़ी की मिनट और घंटे वाली सूई समकोण पर होगी ?
 (A) 12 (B) 24
 (C) 44 (D) 48
19. अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण है
 (A) विद्युत घनत्व (B) विद्युत धारा
 (C) प्रतिरोधकता (D) गतिशीलता
20. विश्व की सर्वाधिक समस्याकारी जलीय अपतृप्ति है
 (A) पिस्टिया (B) लैटेना ↑ R
 (C) इकॉर्निया क्रासिप्स (D) कैट्स M
21. पाँच लड़के एक दौड़ में भाग लेते हैं। राम, मोहन से पहले परंतु गोपाल के पीछे दौड़ समाप्त करता है। विजय, शैलेष से पहले परंतु मोहन के पीछे समाप्त करता है। किसने दौड़ जीती ?
 (A) राम (B) गोपाल
 (C) मोहन (D) विजय
22. निम्नलिखित में से कौन-सा एक द्वितीयक भंडारण डिवाइस नहीं है ?
 (A) फ्लॉपी डिस्क (B) हार्ड डिस्क
 (C) टेप ड्राइव (D) रजिस्टर
23. _____ का अर्थ है, एक सुरक्षित कुंजी युम्प की एक प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी शामिल है।
 (A) सममित क्रिप्टो सिस्टम
 (B) असममित क्रिप्टो सिस्टम
 (C) सममित एन्क्रिप्शन सिस्टम
 (D) सममित डिक्रिप्शन सिस्टम

A

24. A dice is thrown 3 times and its 3 positions are given.




Which symbol is opposite to '1' ?

- (A) \$ (B) 0
(C) @ (D) #

25. Who among the following is considered as the Father of Ecology in India ?
 (A) Dr. Swaminathan (B) Charles Darwin
 (C) Ramdeo Misra (D) S. L. Bahuguna

26. Which of the following Ministries has launched Tree Plantation Campaign "Vriksharopan Abhiyan – 2021" ?
 (A) Ministry of Coal
 (B) Ministry of New and Renewable Energy
 (C) Ministry of Forest and Climate Change
 (D) None of the above

27. Which of the following is called as 'Golden Fibre' ?
 (A) Cotton (B) Silk
 (C) Jute (D) None of the above




29. In a queue of children, Kashish is fifth from the left and Mona is sixth from the right. When they interchange their places among themselves, Kashish becomes thirteenth from the left. Then, what will be Mona's position from the right ?
 (A) 4th (B) 8th
 (C) 14th (D) 15th

30. RISC stands for
 (A) Risk Induced Set Computer
 (B) Reduced Instruction Set Computer
 (C) Risk Instruction Set Computer
 (D) Reduced Inductive Set Computer

31. Who among the following is called as the Architect of Indian Planning ?
 (A) Prasanta Chandra Mahalanobis
 (B) Samarendra Nath Roy
 (C) Debabrata Basu
 (D) None of the above

24. एक पाँसे को 3 बार फेंका जाता है और उसकी 3 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं।



'1' के विपरीत कौन-सा संकेत है ?

- (A) \$ (B) 0
(C) @ (D) #

25. निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है ?


- (A) डॉ. स्वामीनाथन (B) चार्ल्स डार्विन
 (C) रामदेव मिश्र (D) एस. एल. बहुगुणा

26. निम्नलिखित में से कौन-से मंत्रालय ने पौधारोपण अभियान "वृक्षारोपण अभियान-2021" आरंभ किया है ?

- (A) कोयला मंत्रालय
 (B) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
 (C) वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

27. निम्नलिखित में से किसे 'गोल्डन फाइबर' कहा जाता है ?

- (A) कपास (B) रेशम
 (C) जूट (D) उपरोक्त में से कोई नहीं



- (A) फिनॉल (B) बैज़ोइक अम्ल
 (C) क्लोरोबेंजीन (D) बैज़ैलिडहाईड

29. बच्चों की एक पंक्ति में कशिश बाएँ से पाँचवे और मोना दाएँ से छठे स्थान पर है। जब वे आपस में स्थान बदल लेती हैं, तो कशिश बाएँ से तेरहवीं हो जाती है। तब मोना का स्थान दाएँ से कौन-सा होगा ?

- (A) 4 वाँ (B) 8 वाँ
 (C) 14 वाँ (D) 15 वाँ

30. आर. आई. एस. सी. का मतलब है

- (A) रिस्क इन्ड्यूस्ट्री सेट कंप्यूटर
 (B) रेडचूस्ट इंस्ट्रूक्शन सेट कंप्यूटर
 (C) रिस्क इस्ट्रूक्शन सेट कंप्यूटर
 (D) रेडचूस्ट इडक्टिव सेट कंप्यूटर

31. निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है ?

- (A) प्रशांत चंद्र महालनोबिस
 (B) समरेंद्र नाथ रौय
 (C) देवब्रत बसु
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं





32.

Who moved the Objective Resolution in the Constituent Assembly of India?

- (A) Dr. B. R. Ambedkar (B) Vallabhbhai Patel
(C) Mahatma Gandhi (D) Jawaharlal Nehru

33. From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded.




34. Raman drove from home to another town at the speed of 50 km/hr and on his return journey, he drove at the speed of 45 km/hr and took an hour longer to reach home. What distance did he cover each way?

- (A) 500 km (B) 225 km
(C) 900 km (D) 450 km


35. Auto Manufacturer decided to exit India recently is

- (A) Ford (B) Tesla
(C) Kia (D) Ashoka Leyland


36. Select the correct mirror image of the given figure, when the mirror is placed at line AB.



37. दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए, जिसमें रसन आकृति हुई है/समाहित है।



38. The ratio of third proportional to 9 and 30 and the mean proportional to 9 and 25 is



34. रमन पा से दूसरे शहर में जाने के लिए 50 किमी/घण्टा की गति से नगदी बचाता है औ अब उसने अपनी बचावी और जो पा पहुँचे में एक पार्ट की गति से नगदी बचाता है औ अब उसने कुल कितनी दूरी पार की ?

- (A) 500 किमी (B) 225 किमी
(C) 900 किमी (D) 450 किमी

35. ऑटो नियमित विस्ते हाल ही में भारत से निकलने का नियम लिया है

- (A) फोर्ड (B) टेस्ला
(C) किंग (D) अमारोन लेनिव

36. दी गई अकृति का सही रूप प्रतिलिपि चुनिए, जब रूपों को रोना AB पर रखा जाए।

$$\frac{50 \times 45}{9} \times 1$$

43. Identify the incorrect statement about Supreme Court of India.

- (A) The decisions of the Supreme Court are binding on all Courts.
(B) It can not transfer Judges of High Courts.
(C) It can move cases from any Court to itself.

to another.

(D) It can transfer cases from one High Court

One couple has parents and their children in the family. A is the son of C and E is the daughter of A. D is the daughter of F, who is the mother of E. Which of the following pairs is the parents of the couple?

- (A) CF (B) BC
(C) AF (D) AB

44.

Ringworms are caused by

- (A) Bacteria (B) Fungi
(C) Protozoa (D) Virus

37.

_____ on heating with formaldehyde undergoes cross linking to form an infusible solid mass called Bakelite.

- (A) Novolac (B) Melamine
(C) Butadiene (D) Isoprene

38. The ratio of third proportional to 9 and 30

and the mean proportional to 9 and 25 is

- (A) 5 : 1 (B) 2 : 1
(C) 9 : 14 (D) 7 : 15

39. Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences located at _____ district of Haryana.

- (A) Hisar (B) Jind
(C) Karnal (D) Panipat

40. The foundation of Internet was laid in

- (A) 1990 (B) 1989
(C) 1969 (D) 1998

41. Reserve Bank of India commenced its operation on

- (A) April 1, 1944 (B) April 1, 1935
(C) April 1, 1931 (D) None of the above

42. Identify the incorrect statement about Supreme Court of India.

- (A) The decisions of the Supreme Court are binding on all Courts.

43. भारत के संवैधानिक नियमित विधायिका के बारे में गलत कथन की पहचान करें।

- (A) संवैधानिक विधायिका के नियमित सभी व्यायामों पर वायपकी होते हैं।
(B) यह उच्च न्यायालयों के न्यायालयों को दूसरापक नहीं का सम्भावा है।
(C) यह किसी भी न्यायालय से मामलों को अपने पास ले सकता है।
(D) यह किसी को उच्च न्यायालय से दूसरे में सम्बन्धित का सम्भावा है।

44. A, B, C, D, E and F are six members of a family.

One couple has parents and their children in the family. A is the son of C and E is the daughter of A. D is the daughter of F, who is the mother of E.

Which of the following pairs is the parents of the couple?

- (A) CF (B) BC
(C) AF (D) AB

45.

Ringworms are caused by

- (A) Bacteria (B) Fungi
(C) Protozoa (D) Virus

37.

फॉर्मोडिलाइट के साथ गम करने पर निष्कर्षित करने के एक ट्रान्सिटिव गेस पदार्थ तैयार करता है, जिसे बेकालाइट कहते हैं।

- (A) नोवोलैक (B) मेलामीन
(C) ब्यूटाइडेन (D) आइजोप्रेन

38. 12 और 30 के बीच समानुपाती और 9 और 25 के बीच समानुपाती का अनुपात है?

- (A) 5 : 1 (B) 2 : 1
(C) 9 : 14 (D) 7 : 15

39. रायपुर के नियमित विधायिका के बारे में ताजा साजड़ा या पुरा विधिका और पुरा विधायिका विधायिका संघ में ताजा साजड़ा या पुरा विधिका

- (A) विधायिका (B) वीट
(C) कर्ताज (D) परिषद

40. इंटरनेट की नीव किस वर्ग में रखी गई?

- (A) 1990 (B) 1989
(C) 1969 (D) 1998

41. भारतीय विज्ञान सेकेन्स अपना संचालन कब शुरू किया?

- (A) 1 अप्रैल, 1944 (B) 1 अप्रैल, 1935
(C) 1 अप्रैल, 1931 (D) उपराज में से काहे नहीं

42. भारत के संवैधानिक नियमित विधायिका के बारे में गलत कथन की पहचान करें।

- (A) संवैधानिक विधायिका के नियमित सभी व्यायामों पर वायपकी होते हैं।
(B) यह उच्च न्यायालयों के न्यायालयों को दूसरापक नहीं का सम्भावा है।
(C) यह किसी भी न्यायालय से मामलों को अपने पास ले सकता है।
(D) यह किसी को उच्च न्यायालय से दूसरे में सम्बन्धित का सम्भावा है।

43. A, B, C, D, E and F are six members of a family.

One couple has parents and their children in the family. A is the son of C and E is the daughter of A. D is the daughter of F, who is the mother of E.

Which of the following pairs is the parents of the couple?

- (A) CF (B) BC
(C) AF (D) AB

44. रिंगवर्म्स के कारण है

- (A) विकार (B) कफक
(C) प्रोटोजीआ (D) विरुद्ध



45. A digitally enabled platform developed by Bharat Heavy Electricals Limited for renewable energy and power electronics sector is
 (A) Sambachna (B) SPARROW
 (C) SPONGE (D) ASPIRE
46. What is the 11th Fundamental Duty in Indian Constitution added in the year 2002 ?
 (A) To protect integrity of India
 (B) It is the duty of parents to provide education to their children between 6 – 14 years of age
 (C) To develop the scientific temper and the spirit of enquiry
 (D) To safeguard the public property
47. Ten pipes of the same type fill a tank in 24 minutes. If two pipes go out of order, how long will the remaining pipes take to fill the tank ?
 (A) 40 min. (B) 45 min
 (C) $19\frac{1}{5}$ min (D) 30 min
48. Friends of farmers are
 (A) Fishes (B) Cockroach
 (C) Earthworms (D) Dogs
49. Durand Cup belongs to which sports ?
 (A) Football (B) Cricket
 (C) Basketball (D) Baseball
50. Which of the following is a social science theory of the opportunities for each individual to improve her/his quality of life ?
 (A) Survival (B) Life chances
 (C) Opportunistic (D) Optimistic
51. Rohan ranks seventh from the top and twenty-sixth from the bottom in a class. How many students are there in the class ?
 (A) 31 (B) 32
 (C) 33 (D) 34
52. A unique name that identifies a particular website and represents the name of the server where the web pages reside is
 (A) Web server name
 (B) Website group
 (C) Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
 (D) File Transfer Protocol (FTP)



45. नवीनतमीय उर्जा और शासि इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में भारतीय संस्थानों के द्वारा विकसित हुए प्रौद्योगिक सम्पर्क क्षेत्र में
 (A) सरतना (B) स्पैरो
 (C) स्पॉन्ज (D) एस्पारे
46. बार्स 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11 वाँ फारमिल कानून क्या है ?
 (A) भारत की अखंकता की रक्षा करना
 (B) माता-पिता का यह कानून है कि वे अपने बच्चों को 6 – 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करें।
 (C) वैज्ञानिक रसायन और प्रौद्योगिकी प्रावधान करना
 (D) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना
47. समाज अनुराग के दस पाँच टैक्को 24 मिनट में खत्म होते हैं। यदि दो पाँच टैक्को ज्ञात हो जाते हैं, तो शेष पाँच टैक्को को भासे में कितने समय लेंगे ?
 (A) 40 मिनट (B) 45 मिनट
 (C) $19\frac{1}{5}$ मिनट (D) 30 मिनट
48. कृषकों के मित्र हैं
 (A) पश्चिमी (B) तितचढ़ा
 (C) केन्द्रआ (D) कुत्ता
49. क्लूसर का किस तरह से संबंधित है ?
 (A) प्रूटबॉल (B) क्रिकेट
 (C) बास्केटबॉल (D) बैस्केट
50. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सामाजिक विज्ञान मिदान है, जिसमें प्रायोक व्यक्ति को अपने जीवन स्तर के गुणवत्ता को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान होते हैं ?
 (A) उत्तराधिकार (B) जीवन की सामग्रीकरण
 (C) अवसाधारी (D) आवाहारी
51. कक्षा में गोल ऊपर से सातवें और नीचे से 26 वें स्थान पर है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ?
 (A) 31 (B) 32
 (C) 33 (D) 34
52. एक अंतिम नाम जो एक विद्युत वेबसाइट की विद्युत जाता है और असंकेत का नाम जाता है जहाँ वेब पेज लोड होता है, वह है
 (A) वेब सर्वर का नाम
 (B) वेबसाइट समूह
 (C) हाइपरटेक्स्ट ड्राइवर प्रोटोकॉल (एच.टी.टी.पी.)
 (D) फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (एफ.टी.पी.)



53. There is no All-Women Police Station in
 (A) Jammu and Kashmir (B) Manipur
 (C) Daman and Diu (D) Meghalaya
54. 'NOTA' option is available to voters in which of the following elections ?
 1. Rajya Sabha elections
 2. Lok Sabha elections
 3. State Assembly elections
 (A) 2 and 3 only (B) 1 only
 (C) 2 only (D) 1 and 3 only
55. Who was the first empress in the world ?
 (A) Cleopatra (B) Hatshepsut
 (C) Hammurabi (D) Shi Hu Wang Ti
56. Which of the following social bonds connect people to society ?
 (A) Commitment (B) Attachment
 (C) Involvement (D) All of the above
57. In this question, two statements are given followed by two conclusions. Choose the conclusion(s) which best fit(s) logically.
Statements :
 (1) All horses are fishes.
 (2) Some birds are fishes.
Conclusions :
 I. Some fishes are bird.
 II. Some birds are not horse.
 (A) Only conclusion I follows
 (B) Only conclusion II follows
 (C) Neither conclusion I nor II follows
 (D) Both conclusions I and II follow
58. The muscle fibres which taper at both ends (isiform) and do not show striations are
 (A) Smooth muscle (B) Cardiac muscle
 (C) Both (A) and (B) (D) None of these
59. United Nations Public Service Day is observed every year on
 (A) June 23rd (B) October 22nd
 (C) November 11th (D) None of the above
60. Who got the title as 'Admiral of the Indian Ocean'?
 (A) Bartholomew Diaz
 (B) Ferdinand Magellan
 (C) Amerigo Vespucci
 (D) Vasco-da-Gama



53. में समाज महिला गुरुत्व संस्थान नहीं है।
 (A) कर्मा और कर्मा (B) मीमांसा
 (C) राम और दीप्ति (D) मेपल लेफ्ट
54. निम्नलिखित में से किस जगत में मतदाताओं के लिए 'नोटा' विकल्प उपलब्ध है ?
 1. संघसभा चुनाव
 2. लोकसभा चुनाव
 3. राज्य प्रियांगन सभा चुनाव
 (A) केवल 2 और 3 (B) केवल 1
 (C) केवल 2 (D) केवल 1 और 3
55. विद्य की प्रथम साम्राज्यी कीम की ?
 (A) लियोपांग्राम (B) हेल्सोमूर
 (C) हम्मदी (D) निर्वाचनी
56. निम्नलिखित में से कौन-से सामाजिक व्यवस्था लोगों को समाज में जागृत है ?
 (A) प्रतिवर्द्धकता (B) सत्त्वता
 (C) अन्वायिकता (D) उपराजन समीक्षा
57. इस प्रत्यन्दे के बाद विद्य की प्रथम साम्राज्यी कीम की जागृति है ?
 (A) विद्यका चुनाव (B) नियमित व्यवस्था
 (C) अन्वायिकता (D) उपराजन समीक्षा
58. वह प्राणीय तरुं जो दोनों दियों पर उपकरण (कृष्णसंग्रही) होते हैं और पायी नहीं रिकॉर्ड होती है ?
 (A) वृद्ध चीज़ी (B) तृत्य की मासमानी
 (C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
59. हर माल समुद्र राघु लोक सेवा विद्युत काव्य माला जाता है ?
 (A) 23 दृष्टि (B) 22 अक्षय
 (C) 11 जनवरी (D) उत्तोलन
60. प्रौद्योगिक वर्ष वैशिष्ट्य अवैशिष्ट्य अवैशिष्ट्य की जापि किसे प्राप्त हुई थी ?
 (A) वायोलीन डिवाइज (B) 22 अक्षय
 (C) 11 जनवरी (D) उत्तोलन



61. The salaries of A, B, C are in the ratio 2 : 3 : 5. If the increments of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries?

(A) 10 : 11 : 20 (B) 3 : 3 : 10
(C) 23 : 33 : 60 (D) Cannot be determined

62. Who is the current Director General of WHO ?
(A) Redrose Adhanom
(B) Tedros Adhanom
(C) Medros Adhanom
(D) Mackros Adhanom

63. Rahul ranked ninth from the top and thirty eighth from the bottom in a class. How many students are there in the class ?

(A) 50 (B) 45
(C) 52 (D) 48

64. Certain number consists of two digits whose sum is 9. If the order of digits is reversed, the new number is 9 less than the original number. The original number is

(A) 45 (B) 36
(C) 54 (D) 63

65. Which is the cytoplasmic hybrid produced from the fusion of protoplast and cytoplast?

(A) Gobid (B) Hybrid
(C) Hybrionoma cells (D) Callus

66. L, M, N, O, P, Q and R are seven points on a field. O is 220 m to the North of P. L is 180 m to the North of M, which is 19 m to the West of N. P is 40 m to the North of R and 30 m to the East of M. Q is 220 m to the South of L.

Amit starts walking from R towards West. After covering 21 m, he turns right and walks 260 m and then turns towards East. How far does Amit require to walk to reach O ?

(A) 25 m (B) 19 m
(C) 30 m (D) 21 m

67. An organization that connects its subscribers' computer using modem to the Internet is

(A) Internet Service Provider (ISP)
(B) Internet Protocol (IP)
(C) Transmission Control Protocol (TCP)
(D) Domain Name System (DNS)

68. Order to release on probation of good conduct or after admonition is comes under

(A) Section 359 of Cr. P. C.
(B) Section 360 of Cr. P. C.
(C) Section 361 of Cr. P. C.
(D) Section 362 of Cr. P. C.

69. Inflation reduces the
(A) Purchasing power of money
(B) Purchasing power of goods
(C) Purchasing power of services
(D) Purchasing power of property

70. The variability of insulation at the surface of the earth is caused by

(A) Rotation of the earth on its axis
(B) The angle of inclination of the Sun's rays
(C) The length of the day
(D) All the above

71. What is the site of Vernalisation ?

(A) Apical bud (B) Lateral bud
(C) Infected bud (D) Necrotic bud

72. Consider the following statements about YUKTI 2.0 platform:

I. It helps systematically assimilate technologies having commercial potential and information related to incubated startups in our higher education institutions.
II. It is an initiative by Ministry of Science and Technology.

Choose the correct option from the following.

(A) Only the statement I is correct
(B) Only the statement II is correct
(C) Both the statements I and II are correct
(D) None of the above

73. The price of one currency in terms of another currency is

(A) Interest rate
(B) Foreign exchange rate
(C) Bank rate
(D) None of the above

- 73.

दूसरी मुद्रा के समवय में एक मुद्रा का मूल्य है।

(A) व्यापार दर
(B) विदेशी विनाय दर
(C) बैंक दर
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- 74.

एक गो-टो-गो वर्च में 53 मॉलवारा या 53 बुप्परा होने की प्राप्तिकाल है।

(A) इंटरनेट गोटोगोल (आई.पी.)
(B) इंटरनेट गोटोगोल (आई.पी.)
(C) ट्रान्सफर फ़ॉर्म गोटोगोल (टी.पी.पी.)
(D) डॉमेन नेम सिस्टम (डी.एस.एस.)

190

$\frac{83}{2} + \frac{15}{2}$

$\frac{3 \times 70}{60} - \frac{57}{10}$
CMMS - 51

75. $\frac{(20^2 - 10^2) \div 5 \times 3 + 10}{\frac{1}{3} \text{ of } 27 + 10 \div 2 + 1} = ?$
- (A) $10 \frac{2}{3}$ (B) $14 \frac{1}{3}$
 (C) 15 (D) $12 \frac{2}{3}$
76. BCC stands for
 (A) Blended Carbon Copy
 (B) Blended Copy Carbon
 (C) Bind Carbon Copy
 (D) Blind Copy Carbon
77. Which type of clouds look like cotton wool ?
 (A) Stratus (B) Nimbus
 (C) Cirrus (D) Cumulus
78. Four runners started running simultaneously from a point on a circular track. They took 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds and 450 seconds to complete one round. After how much time do they meet at the starting point for the first time ?
 (A) 1800 seconds (B) 3600 seconds
 (C) 2400 seconds (D) 4800 seconds

79. Locust belongs to order
 (A) Orthoptera (B) Coleoptera
 (C) Diptera
- Direction (Q. No. 80 - Q. No. 82) : Read the following information carefully and answer the questions given below.
- There are six persons A, B, C, D, E and F in a school. Each of the teachers teaches two subjects, one compulsory subject and the other optional subject. D's optional subject was History while three others have it as compulsory subject. E and F have Physics as one of their subjects. F's compulsory subject is Mathematics which is an optional subject of both C and E. History and English are A's subjects but in terms of compulsory and optional subjects, they are just reverse of those of D's. Chemistry is an optional subject of only one of them. The only female teacher in the school has English as her compulsory subject.
80. Who among the following have same compulsory and optional subjects as those of F's ?
 (A) D (B) B
 (C) A

75. $\frac{(20^2 - 10^2) \div 5 \times 3 + 10}{\frac{1}{3} \text{ of } 27 + 10 \div 2 + 1} = ?$
- (A) $10 \frac{2}{3}$ (B) $14 \frac{1}{3}$
 (C) 15 (D) $12 \frac{2}{3}$
76. BCC stands for
 (A) Blended Carbon Copy
 (B) Blended Copy Carbon
 (C) Bind Carbon Copy
 (D) Blind Copy Carbon
77. Which type of clouds look like cotton wool ?
 (A) Stratus (B) Nimbus
 (C) Cirrus (D) Cumulus
78. Four runners started running simultaneously from a point on a circular track. They took 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds and 450 seconds to complete one round. After how much time do they meet at the starting point for the first time ?
 (A) 1800 seconds (B) 3600 seconds
 (C) 2400 seconds (D) 4800 seconds

79. Locust belongs to order
 (A) Orthoptera (B) Coleoptera
 (C) Diptera
- निर्देश (ग. स. 80 - ग. स. 82) : नीचे दी गई पूछाएँ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के जवाब दीजिए।
- पृष्ठ विषयालय में से छह व्यक्ति A, B, C, D, E और F हैं। प्रत्येक व्यक्ति दो विषय पढ़ता है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अध्ययन की ओर विषय पढ़ता है। D का विषय विषय और एक विषय विज्ञान है। E का अधिकारी विषय विज्ञान है। F का विषय विज्ञान है। इनमें से चार व्यक्ति अन्य विषयों के विषय विज्ञान विषय हैं। इनमें से एक व्यक्ति अन्य विषयों के विषय विज्ञान विषय है। इनमें से एक व्यक्ति अन्य विषयों के विषय विज्ञान विषय है।
80. निम्नलिखित में से किसके अधिकारी विषय विज्ञान है ?

- (A) D (B) B
 (C) A
12. निम्नलिखित में से किसके अधिकारी विषय विज्ञान है ?
- (A) D (B) B
 (C) A

191

$\frac{83}{2} + \frac{15}{2}$

$\frac{81}{10} + \frac{57}{10}$
CMMS - 51

81. Who is the female member in the group ?
 (A) A (B) B
 (C) C (D) D
82. What is C's compulsory subject ?
 (A) Chemistry (B) Physics
 (C) History (D) English
83. The mouth of Mollusca contains a file-like rasping organ for feeding, called
 (A) Radula (B) Radia
 (C) Magenta (D) Crenata
84. Sudhanshu invested Rs. 15,000 at interest 10% p.a. for one year. If the interest is compounded every six months, what amount will Sudhanshu get at the end of the year ?
 (A) Rs. 16,537.50 (B) Rs. 16,550.00
 (C) Rs. 16,525.50 (D) Rs. 18,150

85. Important source of Vitamin-A is

- (A) Lemon (B) Cauliflower
 (C) Carrot (D) Banana
86. Who is considered as the founder of Symbolic Interactionism ?
 (A) Ma Tuan-Lin
 (B) Aristotle
 (C) Harriet Martineau
 (D) George Herbert Mead
87. A web-based service to exchange messages in real time between two or more people over the Internet is
- (A) Instant messaging (B) E-mail
 (C) Browsing (D) All the above

88. South Asia Free Trade Agreement (SAFTA) came into force in the year
 (A) 2000 (B) 2006
 (C) 2010 (D) 2004
89. The Government imposes upper limit on the price of a goods or service which is called
 (A) Price ceiling (B) Selling price
 (C) Price floor (D) Premium pricing
90. In a certain code, 'GROUP' is written as 'TILFK'. How is 'COLUMN' written in that code ?
 (A) XOLFNM (B) XLFONM
 (C) XLOFNM (D) XILOFNM

81. सूखे में परिवास सदस्य जैन है ?
 (A) A (B) B
 (C) C (D) D
82. C का अधिकारी विषय क्या है ?
 (A) सायं साय (B) भौतिक गायब
 (C) इतिहास (D) जैनी
83. दोलका के मुँह में खोजने के लिए फाल जैन

- पृष्ठ विषयालय आ होता है, जिसे कहा जाता है
 (A) दुल्ता (B) भैंडा
 (C) फैटेरा (D) झेंटेया
84. मूल्य ने एक वर्ष के लिए ₹ 15,000 को 10% वार्षिक वार्षिक व्युत दी जाती है। यदि ज्यात रु 6 महीने में व्यक्तिगती दी जाती है, तो एक वर्ष के अंत में मूल्यांक किसी वर्ष में व्युत होती है ?
 (A) ₹ 16,537.50 (B) ₹ 16,550.00
 (C) ₹ 16,525.50 (D) ₹ 18,150
85. विटामिन - A का महत्वपूर्ण कोटि है ?
 (A) नीव (B) फूलोंपी
 (C) गाज (D) कट्टा
86. प्रतिवार्षिक विषयालय का महत्वांक किसे माना जाता है ?
 (A) मानवान्तर - विषय
 (B) आत्म विद्या
 (C) विद्युतीय विज्ञान
 (D) जल संग्रह
87. दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इंटरनेट पर गुरुत देश विनियम करने के लिए एक वेब अधिकारी सेवा है।

- (A) इंटरनेट सेवा
 (B) ई-मेल
 (C) ब्राउज़र
 (D) जल संग्रह
88. दील्ली एवं यात्रा व्यापार करार (SAFTA) किस वर्ष में लागू हुआ ?
 (A) 2000 (B) 2006
 (C) 2010 (D) 2004
89. सरकार वस्तु या सेवा की किसी भी जैवी सेवा लगाती है, वह कहलाती है

- (A) उत्तराधार्य मूल्य मीमा (B) विषय मूल्य
 (C) न्यूत्राधार्य मूल्य मीमा (D) ग्रीष्मिय मूल्य विधियां
90. एक विषयालय में 'GROUP' को 'TILFK' लिखा जाता है। आ कृपया 'COLUMN' को किसे लिखा जाएगा ?
 (A) XOLFNM (B) XLFONM
 (C) XLOFNM (D) XILOFNM

- A
13. निम्नलिखित में से किसके अधिकारी विषय विज्ञान है ?
- (A) D (B) B
 (C) A

**English Language**

91. Fill in the blank with appropriate word from the alternatives given below it.

_____ is a gift from my father.
 (A) These (B) This
 (C) Those (D) Which

92. Write the words denoting sounds made by the noun subjects from the alternatives given below it.

Wings
 (A) rumbles
 (B) flutter
 (C) clatter
 (D) creak

93. Give the meaning of the underlined idiomatic expression from the alternatives given below it. (Understanding the context from the sentence).

His failure in life can be attributed only to the black ox.
 (A) to be at the highest point of glory and fame
 (B) becoming less powerful and acceptable
 (C) strong determination
 (D) misfortune

94. Choose the right meaning of the following idiomatic expression from the alternatives given below it.

With open arms.
 (A) Protest strongly
 (B) Pleased to welcome something
 (C) Keep in safe distance
 (D) Avoid being too friendly

95. Choose the right antonym of the given word.

CONCEITED
 (A) Detailed
 (B) Convex
 (C) Modest
 (D) Diverge

हिन्दी भाषा

96. किस शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है ?

(A) तुम
 (B) आप
 (C) मैं
 (D) इनमें से कोई नहीं

97. 'ठोकरें खाना' मुहावरे का अर्थ है

(A) धूम मचाना
 (B) यश फैलाना
 (C) दुख उठाना
 (D) इनमें से कोई नहीं

98. जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं

(A) सकर्मक क्रिया
 (B) अकर्मक क्रिया
 (C) द्विकर्मक क्रिया
 (D) इनमें से कोई नहीं

99. 'अनुपम' शब्द का समानार्थक शब्द है

(A) अनंग
 (B) अपूर्व
 (C) अम्बर
 (D) इनमें से कोई नहीं

100. 'अब हमसे सहा नहीं जाता ।' यह वाक्य उदाहरण है

(A) कर्मवाच्य का
 (B) कर्तृवाच्य का
 (C) भाववाच्य का
 (D) इनमें से कोई नहीं